

KNL/SE/2025-26

Date: 7<sup>th</sup> February, 2026

Online filing at: [www.listing.bseindia.com](http://www.listing.bseindia.com) and  
<https://neaps.nseindia.com/NEWLISTINGCORP/login.jsp>

To,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Tower  
Dalal Street  
Mumbai - 400 001(M.H.)  
BSE Scrip ID: KRITINUT BSE CODE: 533210

To,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block G  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai – 400051 (M.H.)  
Symbol: KRITINUT

**Subject: Newspaper clippings — Press Release of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2025.**

Dear Sir,

We are enclosing herewith the copy of newspaper clippings of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended on 31<sup>st</sup> December, 2025 published in Chautha Sansar and Business Standard on Saturday, 7<sup>th</sup> February, 2026.

This is for your information and record.

Thanking you,  
Yours Faithfully,  
**For, KRITI NUTRIENTS LIMITED**

**RAJ KUMAR BHAWSAR**  
**COMPANY SECRETARY &**  
**COMPLIANCE OFFICER**

*Encl: a/a*

## Kriti Nutrients Ltd.

Corporate office:  
Brilliant Sapphire, 801-804, 8th Floor, Plot No. 10,  
Sch. 78-II, Vijay Nagar, Indore – 452 010 (M.P.) INDIA

Registered Office:  
Mehta Chamber, 34 Siyaganj,  
Indore - 452007 (M.P.) INDIA

Factory:  
Industrial Area No. 3, AB Road,  
Dewas (MP) INDIA

Tel.: +91-731-271 9100  
E-mail: [info@kritiindia.com](mailto:info@kritiindia.com)  
CIN: L24132MP1996PLC011245





1st Floor, Sangam  
Tower Church Road, Jaipur - 302001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

WHEREAS, The undersigned being the Authorized Officer of the INDUSIND BANK LIMITED under the Securities and Exchange Board of India (Assets & Enforcement of Security Interest) Rules, 2002 (Act No. 54 of 2002) (SARFAES Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 03/11/2022 through Registered Post/Email to the borrower and co-borrowers/M/S INDUSIND BANK LIMITED, Mr. Sachin Nautiyal, Mr. Suresh Sharma, Mr. Vinay Rathod, Mr. Shekhs Noor Islam, Mrs. Sabina Yasmin & Mr. Shekhs Noor Islam, Loan Account No. 78525302448100054540, to repay the amount mentioned in the said notice being INR 50,04,923.40/- (Rupees Fifty Lacs Four Thousand Nine Hundred Twenty Three & 40/100 Pata Only) along with charges, costs etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/co-borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8(1) of the said Rules on 05/02/2026.

The co-borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IndusInd Bank Ltd., an amount INR 50,04,923.40/- (Rupees Fifty Lacs Four Thousand Nine Hundred Twenty Three & 40/100 Pata Only) and further interest thereon, plus costs, charges, expenses incurred from 10 October 2025.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Property 1 - All that piece and parcel of Plot/Shop No. 316, Multistoried Building/Jawahar Complex) at Municipal Plot No. 23.24/1, 24/2, 25, 26 & 27 Chhota Sarafa and 11 & 12 Bajaj Khar Chowk, Indore (M.P.) Super Built Up Area 67 Sq. Ft. Which are bounded as follows:-

NORTH -Unit no. 316 EAST -Passage SOUTH -Unit no. 315 WEST -Unit no. 319

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY 2 - All that piece and parcel of Plot/Shop No. 319, Multistoried Building/Jawahar Complex) at Municipal Plot No. 23.24/1, 24/2, 25, Chhota Sarafa and 11 & 12 Bajaj Khar Chowk, Indore (M.P.) Super Built Up Area 218 Sq. Ft. Which are bounded as follows:-

NORTH -Flat No. 316 EAST -Flat no. 316 SOUTH -Flat no. 320 WEST -Passage

Property 3 - All that piece and parcel of Plot/Shop No. 315, Multistoried Building/Jawahar Complex) at Municipal Plot No. 23.24/1, 24/2, 25, Chhota Sarafa and 11 & 12 Bajaj Khar Chowk, Indore (M.P.) Super Built Up Area 178 Sq. Ft. Which are bounded as follows:-

NORTH -Flat no. 316 EAST -Passage SOUTH -Passage WEST -Flat No. 320

Date: 03.02.2026 Place:INDORE Authorised Officer ( IndusInd Bank Limited )

## TRUHOME FINANCE LIMITED

(Formerly Known As Shriram Housing Finance Limited)



Regd.Offt.: Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No.1, 2nd Lane, Cenapatha Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018  
Head Office, Level 3, Wockhardt Towers, East Wing C-2, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051  
Website: <http://www.truhomefinance.in>

### PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the authorised officer of Truhome Finance Limited (Formerly Shriram Housing Finance Limited) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers dated 03/01/2022 through Registered Post/Email to the borrower and co-borrowers/M/S INDUSIND BANK LIMITED, Mr. Sachin Nautiyal, Mr. Suresh Sharma, Mr. Vinay Rathod, Mr. Shekhs Noor Islam, Mrs. Sabina Yasmin & Mr. Shekhs Noor Islam, Loan Account No. 78525302448100054540, to repay the amount mentioned in the said notice being INR 50,04,923.40/- (Rupees Fifty Lacs Four Thousand Nine Hundred Twenty Three & 40/100 Pata Only) and further interest thereon, plus costs, charges, expenses incurred from 10 October 2025.

The Borrower(s)/co-borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8(1) of the said Rules on 05/02/2026.

The co-borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IndusInd Bank Ltd., an amount INR 50,04,923.40/- (Rupees Fifty Lacs Four Thousand Nine Hundred Twenty Three & 40/100 Pata Only) and further interest thereon, plus costs, charges, expenses incurred from 10 October 2025.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

#### Borrower's Name and Address

(1). Mr. Jandel Singh Baghel S/o Mr. Harnam Singh Baghel  
Addrs-Flat No.-03-B-Sector , Mohini RiverViewApartment,Dhamkheda,Behind D-Mart, Bhopal,MP462042.

Also At- House No.-334, Azad Nagar, Near Man Preet Hotel, Ashoka Garden, Huzur, Bhopal, MP-462023.

(2). Mrs. Swapuri Bai W/o Mr. Harnam Singh Baghel  
Addrs-Flat No.-03-B-Sector , Mohini RiverViewApartment,Dhamkheda,Behind D-Mart, Bhopal, MP462042.

Also At- Addrs- House No. 92, Village - Mohana, Purana Thana,Tehsil- Gwalior, District-Gwalior (MP)-475333.

Loan Account No. SLPHBHP0000790

#### Amount due as per Demand Notice

Rs.9,46,445/- (Nine Lakh Forty Six Thousand Four Hundred Forty Five Only) as on dated, 08/07/2025 under reference of Loan Account No. SLPHBHP0000790, Notice Date-14/07/2025

#### Description of Mortgaged Property

All the piece and parcels of immovable property being - Residential Plot. No 42 Part of Khasra No 36/1/2/2 Village Maholi Ph No21, Ward no 74 Rajasv Nirishak Mandal 01 Vikashand Phanda Tehsil husr Distt Bhopal (M.P.), Area 600 Sqft or 55.76 Sqmr. Bounded as under- East by:Plot No 58, West by: Road, North by:Plot No 43, South by:Plot No 41

#### Borrower's Name and Address

(1). MS. Next Episode Club Proprietor Mr. Jandel Singh Baghel S/o Mr. Harnam Singh Baghel  
Addrs-Top Floor, Reliance Fresh Building, Chuna Batti, Bhopal, MP - 462001.

(2). Mr. Jandel Singh Baghel S/o Mr. Harnam Singh Baghel

(3). Mrs. Swapuri Bai W/o Mr. Harnam Singh Baghel  
Addrs-Flat No.-03-B-Sector , Mohini RiverViewApartment,Dhamkheda,Behind D-Mart, Bhopal, MP462042.

Loan Account No. SLPHBHP0001478

#### Amount due as per Demand Notice

Rs.7,56,766/- (Seven Lakh Fifty Six Thousand Seven Hundred Sixty Six Only) as on dated, 10/11/2025 under reference of Loan Account No. SLPHBHP0001478

Notice Date-15/11/2025

#### Description of Mortgaged Property

All the piece and parcels of immovable property being - Residential Plot. No 42 Part of Khasra No 36/1/2/2 Village Maholi Ph No21, Ward no 74 Rajasv Nirishak Mandal 01 Vikashand Phanda Tehsil husr Distt Bhopal (M.P.), Area 600 Sqft or 55.76 Sqmr. Bounded as under- East by:Plot No 58, West by: Road, North by:Plot No 43, South by:Plot No 41

Place: Bhopal Sd/- Authorised Officer- Truhome Finance Limited  
Date : 05-02-2026 (Earlier Known as Shriram Housing Finance Limited)

## AMBIT Finvest

Pragati ke partner

## AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2006PTC163257

Regd. Office: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Branch office located at

103, Mangalam Building, Naiper town, Shastri Bridge Road, Jabalpur MP - 482001  
will be closed w.e.f. 10th May 2026.

All future correspondence should be sent to the Branch office

of the Company by contacting us as follows:

#### Ambit Finvest Private Limited

A 506 - A 510, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093

Email ID: [customerservice@ambit.co](mailto:customerservice@ambit.co) • Contact No. +91 91159 98000

Sd/-  
Place: Jabalpur  
Date: 07-02-2026  
On behalf of  
Ambit Finvest Private Limited

## AMBIT Finvest

Pragati ke partner

## AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2006PTC163257

Regd. Office: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Branch office located at

Shop No 4, Maniraj Complex, Village Padra, NH 39 Bypass Road, Infront of JIO BP Petrol Pump, Gopadbanas, Sidhi 486661 - MP  
will be closed w.e.f. 10th May 2026.

All future correspondence should be sent to the Corporate office

of the Company by contacting us as follows:

#### Ambit Finvest Private Limited

A 506 - A 510, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093

Email ID: [customerservice@ambit.co](mailto:customerservice@ambit.co) • Contact No. +91 91159 98000

Sd/-  
Place: Sidhi  
Date: 07-02-2026  
On behalf of  
Ambit Finvest Private Limited

## Nahar POLY FILMS LIMITED

CIN: L17115PB1988PLC000820

Regd. Office: 376, Industrial Area-A, Ludhiana - 141003

Phone : 0161-2600701-705, Fax: 0161-2222942

Email: [secnel@owmnahar.com](mailto:secnel@owmnahar.com), Website: [www.owmnahar.com](http://www.owmnahar.com)

### Special Window for Transfer and Dematerialisation ("Demat") of Physical Shares

Notice is hereby given pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/38/13(11/2)/2026-MRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026 that a special window from February 05, 2026 to February 04, 2027 has been introduced to facilitate shareholders for lodging/re-lodging requests for transfer and dematerialisation ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. This special window is also available for such transfer requests which were submitted prior to April 01, 2019 and were rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/process/otherwise.

Eligible shareholders are requested to submit their transfer requests alongwith the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at M/s. Ankit Assignments Limited, Unit: Nahar Poly Films Ltd. 4E/2, Ankit House, Jhansi Extension, New Delhi-110055 (Tel. 011-42541234), within the stipulated period.

For Nahar Poly Films Ltd.

Sd/-  
Priya

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ludhiana

Dated : 05.02.2026

## AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2006PTC163257

Regd. Office: Ambit House, 449, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the Branch office located at

2nd Floor, RS Tower, Behind Jockey Showroom, Circuit House, Satna, M.P. - 485002  
will be closed w.e.f. 10th May 2026.

All future correspondence should be sent to the Branch office

of the Company by contacting us as follows:

#### Ambit Finvest Private Limited

A 506 - A 510, 5th Floor, Kanakia Wall Street, Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai - 400093

Email ID: [customerservice@ambit.co](mailto:customerservice@ambit.co) • Contact No. +91 91159 98000

Sd/-  
Place: Satna  
Date: 07-02-2026  
On behalf of  
Ambit Finvest Private Limited

## ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) LTD. (ARCLIL)

(Trustee of ARCLIL-Trust-2025-011)

CIN No.: U65999MH2002PLC134884 Website: [www.arclil.co.in](http://www.arclil.co.in)

Regd. Office: The Ruby, 10th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai-400028, Tel: +91 2266581300

Branch Office: Office No. 1008, 11th Floor, Westend Mall, Janakpuri District Centre, Janakpuri, New Delhi P.O: 110058 Ph: +91 011 4177 5206

Customer Name Description of the Immovable Property

13(2) Notice Date : 01.08.2025  
Notice Amt.: Rs. 897422.73/-  
Possession Date: 04-Feb-2026  
Location: M.P.<

## PUBLIC NOTICE

It is for the information of the general public that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, through the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), MAHARASHTRA has granted Environmental Clearance for the proposed Residential & Commercial Project situate at CTS NO. 617/A (now designated as CTS No 617A/1) to 617/A/4, 617/B/4/B, 617/1 to 617/29, 617/31 to 617/36, 617/38 to 617/45, and 617/48 to 617/172, in Village Kanjur, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai 400078 to Anthurium Developers Limited vide letter bearing No. SIA/MH/INFRA2/554865/2025 dated 30/01/2026.

The Environment Clearance letter is available on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) at <https://parivesh.nic.in>

Shri. Allwyn Vaz.  
Authorized Signatory  
For Anthurium Developers Ltd.  
Place: Mumbai  
Tel no: +91 22 6747 8600  
Date: 07/02/2026



Registered Office: Muthoot Finance Limited,  
NH Bypass, Palarivattom, Kochi - 682028, Kerala, India.  
Telephone: 0484 2396478, 2394712; Fax: 0484 2396506, 2397399  
Email: cs@muthootgroup.com; Website: [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com)  
CIN: L65910KL1997PLC011300

## NOTICE

## Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (the "Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016 and amendments made thereto. The Company has, vide letter dated 6th February, 2026 communicated to the concerned shareholders details of shares which are liable to be transferred during the financial year 2025-26 to IEPF Authority under the Rules ("Relevant Shares") and a list of such shareholders is uploaded on Company's website at [www.muthootfinance.com](http://www.muthootfinance.com). Shareholders are requested to verify.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the Relevant Shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from IEPF Authority by following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding Relevant Shares in physical form and whose Relevant Shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that upon such transfer, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-transferable. The concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on the website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice for the purpose of transfer of Relevant Shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

The concerned shareholders are requested to claim the unpaid/ unclaimed dividend amounts on or before before 6th May, 2026, failing which the Relevant Shares will be transferred to IEPF Authority at an appropriate date as per procedure stipulated in the Rules, and no claims thereafter shall be made by the shareholders against the Company in respect of the Relevant Shares. In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at MUFG Intime India Pvt. Ltd., Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028, Tel No: 0422-2314792, E-mail: [iepf.shares@linkintime.co.in](mailto:iepf.shares@linkintime.co.in).

For Muthoot Finance Limited

Sd/-  
Place : Cochin  
Date : February 07, 2026

George Alexander Muthoot  
Managing Director

## DHULE SAKRI ROAD BRANCH

## POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)]

(For Immovable property)

## Whereas:

The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank, Shirdi Branch under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 24.11.2025 calling upon the borrower Mr. Sameer Ravindra Makdeja (Borrower), Mr. Ravindrakumar Khiluram Makdeja (Co Borrower) and Mr. Chandan Latif Relan (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.12,63,656.76 (Rupees Twelve Lakh Sixty Three Thousand Six Hundred Fifty Six and Paise Seventy Six Only) along with future interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken actual possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules on this 05th Day of February of the year 2026.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank, Dhule Sakri Road Branch for an amount of Rs.12,52,620.76 (Rupees Twelve Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred Twenty Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

## Description of the Immovable Property

All that part and parcel of Land and Building situated in CTS No 6257 (Block No. R-06, Room No 4) admeasuring44.35sq. Mtr. in Kumar Nagar, Sakri Road Dhule. Owned By: Mr. Ravindrakumar Khiluram Makdeja Bounded : On the North by: CTS No. 6772 On the South by: Road On the East by: CTS No. 5256 On the West by: CTS No. 6258

All that part and parcel of Land and Building situated in CTS No 6772 (Block No. R-06, Room No 4)admeasuring33.9 Sq. Mtr. in Kumar Nagar, Sakri Road Dhule. Owned By: Mr. Ravindrakumar Khiluram Makdeja Bounded : On the North by: CTS No. Road On the South by: CTS No. 6257 On the East by: CTS No. Open Space On the West by: CTS No. Open Space

Date : 05/02/2026



Sd/-  
Authorised Officer, Canara Bank

## Kriti

COOKING OIL

## Kriti Nutrients Ltd.

CIN No : L24132MP1996PLC011245



Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj, Indore-452 007 (M.P.)

Phone: 0731-2719100 / 26 E-mail: [cs@kritinutrients.com](mailto:cs@kritinutrients.com); Website: [www.kritinutrients.com](http://www.kritinutrients.com)

## Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 31st December, 2025

₹ in Lacs (Except Earnings Per Share)

Sr. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	9 Months Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	9 Months Ended	Quarter Ended
		31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2025	31.12.2024
1.	Total Income from Operations Sales / Income from Operations	22,621.36	67,265.29	17,541.33	22,621.36	67,265.29	17,541.33
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	1,185.39	3,582.93	1,201.36	1,185.39	3,582.93	1,201.36
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	1,185.39	3,582.93	1,201.36	1,185.39	3,582.93	1,201.36
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After exceptional and / or Extraordinary items)	921.27	2,765.01	824.66	915.58	2,754.07	824.66
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the Period and Other Comprehensive Income (After Tax) Income (After Tax)	929.20	2,762.80	824.55	924.76	2,753.21	824.55
6.	Equity Share Capital (Face value of ₹1 each)	501.04	501.04	501.04	501.04	501.04	501.04
7.	Reserves (excluding Revenue Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year				20,688.02		20,684.93
8.	Earnings Per Share (of ₹1 each) (for continuing and discontinued operations) - (a) Basic : (b) Diluted :	1.84	5.52	1.65	1.83	5.50	1.65

## Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) & ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on company's website ([www.kritinutrients.com](http://www.kritinutrients.com))

2) The above results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 4th February, 2026 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 5th February, 2026.

3) The consolidated financial statements include result of Associate Company viz.

Kriti Industries (India) Limited.



For Kriti Nutrients Ltd.  
Sd/-  
Shiv Singh Mehta  
(Chairman & Managing Director)  
DIN 00023523

## ASHAPURA MINECHEM LIMITED

Registered Office: Jeevan Udyog Building, 3rd Floor, 278, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

Tel. No.: +91-22 66221700 Fax: +91-22 22074452 Website: [www.ashapura.com](http://www.ashapura.com)

Investor Relations E-mail-ID: [cosec@ashapura.com](mailto:cosec@ashapura.com) CIN: L14108MH1982PLC026396

## STATEMENT OF STANDALONE / CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st December, 2025

(₹ in Crores except for EPS)

PARTICULARS	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended		Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
	31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025	31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025
1. Income												
(a) Income from Operations	121.28	87.05	96.85	314.35	248.87	371.52	960.43	952.50	865.44	3,268.50	2,183.69	2,738.93
(b) Other Income	5.28	13.61	6.45	22.54	13.25	15.16	28.70	1.44	13.81	36.09	18.80	74.89
<b>Total Income</b>	<b>126.56</b>	<b>100.66</b>	<b>103.30</b>	<b>336.89</b>	<b>262.12</b>	<b>386.68</b>	<b>989.13</b>	<b>953.94</b>	<b>879.25</b>	<b>3,304.59</b>	<b>2,202.49</b>	<b>2,813.82</b>
2. Expenses												
(a) Cost of materials consumed	23.51	16.78	21.56	62.45	55.78	82.38	278.96	143.85	253.08	680.88	477.23	743.51
(b) Purchase of Stock-in-trade	27.19	3.57	20.22	35.89	33.20	67.41	49.53	32.72	29.43	109.33	83.40	120.22
(c) Changes in inventories	(1.51)	6.26	(2.55)	2.63	(1.20)	2.59	(63.75)	48.93	(53.80)	92.14	22.98	(155.11)
(d) Employee benefits expenses	9											